



SCAN KARO BEFIKAR RAHO

सेंचुरी प्रॉमिस ऐप क्या है?

बाजार में ढेर सारे नकली प्लाइवुड उपलब्ध हैं। ग्राहक ठगे जाते हैं जब वे एक असली ब्रांड के लिए भुगतान करते हैं लेकिन नकली ब्रांड को घर ले जाते हैं। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए, सेंचुरीप्लाई देश के प्लाइवुड उद्योग में पहली कंपनी है, जिसने अपनी सभी प्लाईबोर्ड में अद्वितीय क्यूआर कोड को एकीकृत किया है। एक बार स्कैन करने के बाद, क्यूआर कोड आपको बताएगा कि क्या बोर्ड एक असली सेंचुरीप्लाई उत्पाद है या डुप्लीकेट है। इसके साथ ही यह उस कारखाने का विवरण भी प्रदान करेगा जहां प्लाईबोर्ड का निर्माण किया गया था। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, आपको सेंचुरी प्रॉमिस ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप के साथ आप या आपके ग्राहक ई-वारंटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।

सेंचुरी प्रॉमिस ऐप कैसे इस्तेमाल करेंगे?

चरण 1:

Android फ़ोन के लिए Play Store से या Apple फ़ोन के लिए ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और इसे अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करें।

ऐप लॉन्च करने के लिए बस अपने स्मार्टफोन की होम स्क्रीन पर ऐप आइकन पर टैप करें।

ऐप होम-स्क्रीन पर 'स्कैन क्यूआर कोड' का विकल्प चुनें। आप 'अपलोड क्यूआर कोड' का विकल्प भी चुन सकते हैं।

चरण 2:

अपने स्मार्टफोन को प्लाइवुड के क्यूआर कोड पर इस तरह पकड़ें कि क्यूआर कोड व्यूफाइंडर रेक्टैंगल के अंदर फिट हो जाए।

आपका स्मार्टफोन कैमरा क्यूआर कोड को स्कैन करना शुरू कर देगा। स्कैनिंग की प्रक्रिया में कई सेकंड लग सकते हैं।

चरण 3:

यदि यह एक असली सेंचुरीप्लाई उत्पाद है, तो 'CenturyPly genuine product' लाइन के साथ उत्पाद का विवरण सूचीबद्ध रहेगा:

उत्पाद के विवरण में उत्पाद का नाम, प्लांट का नाम, मोटाई, आकार, निर्माण की तारीख और अद्वितीय कोड जैसे विवरण शामिल होंगे।

आपके पास ई-वारंटी जनरेट करने और डाउनलोड करने का विकल्प भी है।

आप ऑफर और प्रमोशन भी देख सकते हैं और ऐप के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं।

आप यहां ऐप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं -

<https://www.youtube.com/watch?v=efa-PlhMANo>

क्या सेंचुरी प्रॉमिस ऐप मुफ्त है या चार्ज करने योग्य है?

सेंचुरी प्रॉमिस ऐप को मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है।

क्या क्यूआर कोड वाले सेंचुरीप्लाई प्लाईबोर्ड अतिरिक्त दाम पर मिलते हैं?

नहीं। सेंचुरीप्लाई के सभी उत्पाद बिना किसी अतिरिक्त कीमत के अद्वितीय क्यूआर कोड के साथ मिलते हैं।

कौन से सेंचुरीप्लाई उत्पाद क्यूआर कोड के साथ मिलते हैं?

सेंचुरीडोर्स और सेंचुरीप्लाई के सभी प्लाईबोर्ड उत्पाद क्यूआर कोड के साथ मिलते हैं।

ई-वारंटी सर्टिफिकेट कैसे मिलता है?

उत्पाद को स्कैन करने के बाद आप एक ई-वारंटी सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं जो आपके फोन पर डाउनलोड किया जाएगा और आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा।

क्या सेंचुरी प्रॉमिस ऐप को डीलरों और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है?

हाँ। सेंचुरी प्रॉमिस ऐप का इस्तेमाल ग्राहक, डीलर, रिटेलर और कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं। खरीदे गए प्लाईबोर्ड की प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए, ई-वारंटी डाउनलोड करने के लिए और नवीनतम ऑफर और प्रमोशन पर अपडेटेड रहने के लिए,

ग्राहक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीलर, कॉन्ट्रैक्टर और रिटेलर वैध दस्तावेजों के साथ एप्लिकेशन में रजिस्टर करने के ज़रिए ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में पारदर्शी होकर अपने ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के लिए और अपने ग्राहकों के लिए ई-वारंटी प्रमाणपत्र भी जारी करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या सेंचुरी प्रॉमिस ऐप कॉन्ट्रैक्टरों के लिए फायदेमंद है?

हाँ। सेंचुरी प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्टरों के लिए कैसे फायदेमंद है, यह जानने के लिए देखें यह वीडियो -

<https://www.youtube.com/watch?v=nHxiMHN8FPO>

यदि मेरा उत्पाद असली सेंचुरीप्लाई उत्पाद नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए?

यदि आपके द्वारा क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके उत्पाद पर "Not genuine CenturyPly product" का लेबल दिखे तो कृपया अपने विक्रेता से संपर्क करें और अपने दस्तावेज़ और खरीद विवरण सत्यापित करें।